



बाढ़ का पानी उतरने पर सावधानी



अच्छी स्वच्छता अपनायें

अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन या कम से कम 60% अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र से धोएं



स्थानीय अधिकारियों के साथ सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए नल के पानी का उपयोग करें

पीने, खाना पकाने और स्नान करने के लिए बोतलबंद, उबले या उपचारित पानी का प्रयोग करें



यदि आपको कोई खुला घाव है तो बाढ़ के पानी से बचें। संक्रमित घावों को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है

फफूंदी की सफाई



ब्लीच घोल का उपयोग करके सतहों को साफ करें (20 लीटर पानी में 250-400 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाएं)



यदि सतहों में खुरदरापन दिखाई देता है, तो रगड़ने के लिए मजबूत ब्रश का उपयोग कर सकते हैं



सतहों को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह साफ करें



गीली वस्तुओं को सूर्य के नीचे प्राकृतिक वाष्पीकरण के लिए छोड़ दें

बाढ़ प्रभावित सतहों को कीटाणुरहित और स्वच्छ रखें



रबर या अन्य बिना छिद्र वाले जूते, दस्ताने और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनें



सतहों से गंदगी और मलबा धोने के लिए साबुन और गर्म पानी का उपयोग करें




सतहों पर कीटाणुओं को मारने के लिए ब्लीच का प्रयोग करें। ब्लीच लेबल पर दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करें

बुनियादी सावधानियां



घर लौटने के बाद सावधान रहें। प्रवेश करने से पहले संरचनात्मक क्षति का आकलन करें



गैस रिसाव और विद्युत दोष जैसे संभावित खतरों की जांच करें और तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें



हानि और बीमा उद्देश्यों के लिए वस्तुओं की तस्वीर लें



सभी क्षतिग्रस्त कालीन, गद्दे, तकिए आदि को त्याग दें, क्योंकि वे फफूंद संक्रमण का स्रोत हो सकते हैं



यदि आपके बगीचे बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं तो उनकी कच्ची सब्जियां और फल न खाएं



रेफ्रिजरेटर में रखे सभी खाद्य पदार्थों को फेंक दें

